

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 04.01.2023\***

**\*अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता\*-**

**\*थाना गजरौला पुलिस द्वारा कंटेनर चालक को बंधक बनाकर लूट की घटना में वांछित/10-10 हजार रुपये ईनामी 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुये ट्रक के 06 टायर व अवैध असलाह (तमंचा/कारतूस,अवैध चाकू) बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा कंटेनर चालक को बंधक बनाकर लूट की घटना में वांछित/10-10 हजार रुपये ईनामी 03 शातिर बदमाश गिरफ्तार किये गये जिनके कब्जे से लूटे हुये ट्रक के 06 टायर व अवैध असलाह (तमंचा/कारतूस,अवैध चाकू) बरामद हुए ।

**संक्षिप्त विवरण:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 03.01.2022 की शाम थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना पर कंटेनर चालक को बंधक बनाकर टायर लूट की घटना में वांछित/10-10 हजार रुपये ईनामी 03 शातिर अभियुक्त 1. कासिम पुत्र छिद्दा 2. मोनिश पुत्र छिद्दा व 3. दानिश पुत्र छिद्दा निवासीगण ग्राम चंदवार की मढैया थाना असमौली जनपद संभल को कब्रिस्तान ग्राम चंदवार की मढिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध असलाह 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ । पूछताछ से अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्तगण द्वारा गन्ने के खेत में छिपाकर रखे लूटे हुये ट्रक के 06 टायर बरामद किये गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये ।

**\*पूछताछ विवरण\*:-**

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथी आले नबी पुत्र मुर्शरफ अली, कादिर पुत्र बली मौहम्मद, इसरान उर्फ इस्लाम पुत्र गफ्तार व शाकिब पुत्र फकीरा निवासीगण ग्राम बहरामपुर बादली थाना बाबूगढ जनपद हापुड के साथ मिलकर दिनांक 24.12.2022 को शिवा गोल्डन ढाबे से एक ट्रक ड्राईवर को डरा धमकाकर कब्जे में लेकर ढबारसी से पहले एक बाग में उसके ट्रक के सभी टायर खोलकर बरामद ट्रक टाटा 10 टायरा रजि0न0 UP21 BN 4994 में लोड कर वहां से भाग जाना बताया गया । अभियुक्त कादिर द्वारा आले नबी को हिस्से में आये रुपयों में से एडवांस 12000/- रुपयें देना तथा लूटे हुये टायर से 04 टायर रिम कादिर, इसरान उर्फ इस्लाम व शाकिब उपरोक्त द्वारा दो दिन बाद एक छोटे हाथी में लाधकर ले जाना तथा शेष बचे 06 टायर को एक ईख के खेत में छिपाकर रख देना बताया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



**\*उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण कासिम, मोनिश व दानिश थाना गजरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 844/22 धारा 342,394,411 भादवि में वांछित/फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार रुपयें का इनाम घोषित किया गया था\* ।**

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*:-**

1. कासिम पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम चंदवार की मढैया थाना असमौली जनपद संभल ।
2. मोनिश पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम चंदवार की मढैया थाना असमौली जनपद संभल ।
3. दानिश पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम चंदवार की मढैया थाना असमौली जनपद संभल ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. कंटेनर ट्रक से लूटे हुये 06 टायर मय रिम JK कम्पनी ।
2. अवैध असलहा 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस 315 बोर व 01 नाजायज चाकू ।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त कासिम\*:-**

1. मु0अ0सं0 844/22 धारा 342, 394,411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 177/21 धारा 120बी,420,468,471 भादवि व 2/3 सार्व0सं0नि0 अधि0 थाना फैजगंज वेहटा जनपद बदायूं ।
3. मु0अ0सं0 06/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त मोनिश\*:-**

1. मु0अ0सं0 844/22 धारा 342, 394,411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त दानिश\*:-**

1. मु0अ0सं0 844/22 धारा 342, 394,411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 01/23 धारा 307 भादवि 3/25 आयुद्ध अधि0 (पुलिस मुठभेड) भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 05/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक अरिहन्त कुमार सिद्दार्थ थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 रामेन्द्र सिंह थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. हे0का0 28 विपिन कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. आरक्षी 401 टिकू थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. आरक्षी 54 मोहित कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***